



धनेश्वर भगवान दोर्जी शुगदेन



२,५०० से अधिक साल पहले, भगवान श्री मंजुश्री लोगों को आनंद और शांति प्रदान करने हेतु प्रकट हुए थे। भगवान श्री मंजुश्री से भगवान् दोर्जी शुगदेन प्रकट हुए जो धन-सम्पदा, स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं। उनका अवतार, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य प्रबुद्ध गणपति गणेश के पुत्र के रूप में हुआ था। धन-सम्पदा, शांति और सुरक्षा की प्राप्ति हेतु भगवान् दोर्जी शुगदेन को रोजाना भजें।

## दोर्जी शुगदेन की छोटी प्रार्थना। संपत्ति, शांति और सुरक्षा के लिए एक दैनिक अनुरोध।

दोर्जी शुगदेन को समर्पित इस दैनिक प्रार्थना की रचना 25 वें महामान्य छेम रिन्पोछ ने गुरुवार, 26 फरवरी 2015 को प्रातः 2:03 बजे की थी।

ईश्वर के अनेक रूप और असंख्य अभिव्यक्तियाँ हैं। ये सभी अभिव्यक्तियाँ हमें ईश्वर के अलग-अलग रूप दिखाती हैं ताकि वे सभी प्राणियों को लाभ पहुंचा सकें। ईश्वर के सभी रूपकाया प्रकार कृपा, कुशलता और मनीषा से परिपूर्ण हैं। हम चाहे दुःख, विषाद, उदासी, भ्रम, अपूर्ण, परिपूर्ण या कुछ भी और अनुभव करें, हमारे अज्ञान और हमारी अप्रशिक्षित मनोस्थिति के कारण हम अपनी भावनाओं के अनुरूप ही बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों को देखते हैं।

हमारी प्रकृति को जानते-समझते हुए, हे सर्वज्ञ दोर्जी शुगदेन, कृपया हमें उसी प्रकार अपने हृदय के नज़दीक रखें जैसे माता-पिता अपने बालक को रखते हैं।

यद्यपि ईश्वर और उसके नाना रूप हमसे किसी उपहार या वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी हम सर्वोत्कृष्ट श्री मंजुश्री दोर्जी शुगदेन को नेह और प्रेम से चाय, धूप व मन्त्र समर्पित करते हैं और आपसे आशीष की कामना करते हैं। कामना करते हैं कि आप हमारे जीवन, हृदय और घरों में निवास करें एवं हमें शुभ-अशुभ, अच्छे-बुरे का संकेतों और शकुनों के माध्यम से ज्ञान कराते रहें। बुरे होने की संभावनाएं के समय उनसे हमारी रक्षा करें। मेरे दुर्बल मनो-मस्तिष्क में भले और सकारात्मकता का भाव पल्लवित करें। मेरी सारी आशाएं आपमें ही निर्भर करती हैं।

कठिनाइयों, समस्याओं और भ्रम के उदय के समय, हे सर्वशक्तिशाली पवित्रतम सर्वदर्शी प्रभु, आप मुझे, मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों, वातावरण और मेरे पालतू पशुओं पर भी अपनी कृपादृष्टि बनाएं रखें। मुझे ज्ञान का आशीष दें, आशा और शांति प्रदान करें।

हे केसरिया वस्त्रधारी, सर पर गोल टोपी से सुशोभित, मुक्ति, न्याय और ज्ञान की खड़ग और सर्व कामनाओं की पूर्ति स्वरूप रत्न धारण किये, भगवान् दोर्जी शुगदेन जिनकी सवारी समस्त दोषों का दमन करने वाला सिंह है, उनसे मैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी कामनाएँ कल्याणकारी ही हों, यह आवश्यक नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है अतः मैं आप पर ही भरोसा करता हूँ, अपनी तुच्छ बुद्धि पर नहीं। मैं और समस्त लोक मुक्ति के पथ पर बढ़ सकें, ऐसा आशीर्वाद दें।

सर्व मंगलकारी भगवान् दोर्जी शुगदेन, मुझे पर कृपा करें और मेरे हृदय में निवास करें। स्वार्थ के भाव से मुक्त हो कर, निःस्वार्थ भाव से औरों की सेवा कर सकूँ, मुझे ऐसी बुद्धि, धैर्य और चेतना प्रदान करें।

मुझे और अधिक दयालुता, बुद्धिमत्ता, करुणा, सहिष्णुता और वे सब जो मुझे प्रेम करते हैं उनके प्रति और जो मुझे चोट पहुंचाते हैं उनके प्रति भी मुझे क्षमाशीलता का आशीर्वाद दें। हे दोर्जी शुगदेन, आपके निकट आने हेतु मैं अपनी तुच्छता त्याग सकने में सक्षम हो सकूँ। मैं अपने सीमित दृष्टिकोण, अनुमानों और हठ से मुक्त हो सकूँ। क्योंकि अंत में, जब मैं अस्तित्व के धरातल को छोड़ रहा होऊंगा, उस समय मेरे पुण्य कर्म ही मेरे साथ होंगे और सब कुछ सब लोग पीछे छूट जायेंगे। मैं यह वास्तविकता सदैव स्मरण रख सकूँ और सदैव सकारात्मक कार्य करूँ। हे सर्वशक्तिशाली अतिकृपालु दोर्जी शुगदेन, मुझे आपकी छवि अपने मानस पटल पर प्राप्त कर सकने की योग्यता प्रदान करें ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर अग्रसर हो सकूँ।

मैं आपको केसरिया रंग की चाय और अपना विश्वास समर्पित कर आपसे अपनी प्रार्थनाओं की पूर्ति और सिद्धियों की प्राप्ति की आकांक्षा करता हूँ। आपके मन्त्र का उच्चारण करने पर आरोग्य, शांति, प्रेम, आयुष, सुरक्षा और सुनयत का उदय हो। कृपा करें।

पूर्णता, शांति और ज्ञान का मन्त्रः

# ॐ बेंजा विकी बिताना सोहा

(रोजाना इस मन्त्र की एक या अधिक मालाएं जपना लाभप्रद है। समय-समय पर, ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने का प्रयास करें जहाँ आप वर्षभर में 100,000 या अधिक मन्त्रों का जाप कर पायें।)

## भगवान् दोर्जी शुगदेन की अर्चना के लाभ।

भगवान् दोर्जी शुगदेन हर किसी के लिए लाभप्रद है। व्यापारी, महिलाओं, परिवारों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्यप्रदाताओं, पेशेवरों, और किसानों आदि सबको उनकी पूजा से लाभ है। इसके अलावा काले जादू, दुरात्माओं, और अवसाद के सताए लोगों के लिए भगवान् दोर्जी शुगदेन रक्षक और अभय दाता है।